

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )  
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 54]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 23 जनवरी 2016—माघ 3, शक 1937

वाणिज्यिक कर विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 23 जनवरी 2016

संशोधन

इस कार्यालय की अधिसूचना क्रमांक एफ. ए-3-02-2016-1-पांच(10) दिनांक 22 जनवरी 2016 जो कि मध्यप्रदेश असाधारण राजपत्र क्रमांक 52, दिनांक 22 जनवरी 2016 के पृष्ठ क्रमांक 104(1) पर अंग्रेजी के आयटम क्रमांक 66 Water storage tanks made of plastic." का त्रुटिवश प्रकाशन नहीं हो पाया है. उक्त अधिसूचना में आयटम क्रमांक 66 Water storage tanks made of plastic." जोड़ा गया है जो कि संशोधित शब्द पढ़ा जावे.

अचला आगवेकर, अवर सचिव.